

कतर में पूर्व नौसेना कर्मी को मृत्युदंड

प्रलिस के लयः

कतर में पूर्व नौसेना कर्मियों को मौत की सज़ा, [भारतीय नौसेना](#), [भारत-कतर संबंध](#), [अंतरराष्ट्रीय नयायालय \(ICJ\)](#), संयुक्त राष्ट्र (UN)

मेन्स के लयः

कतर में पूर्व नौसेना कर्मियों को मौत की सज़ा, भारत के समक्ष कानूनी वकिल्प और इसका भारत-कतर संबंधों पर प्रभाव

[स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कतर के एक नयायालय ने भारतीय नौसेना के आठ पूर्व अधिकारियों को जासूसी के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई है।

- संबद्ध अधिकारियों को अगस्त 2022 में गरिफ्तार कया गया था और उन पर **गोपनीय जानकारी साझा करने संबंधी आरोप** लगाए गए थे।





//

मामले की पृष्ठभूमि:

■ याचिका:

- दोहा में अल दहरा (कतर की नज्दी सुरक्षा कंपनी) के साथ कार्य कर रहे अभियुक्त अधिकारियों पर वर्ष 2022 में कतर में उनकी गरिफ्तारी के समय कथति तौर पर गोपनीय जानकारी साझा करने का आरोप लगाया गया था ।
- दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज़ एंड कंसल्टेंट सर्वसिज़, जसि कंपनी के लयि उन्होंने कार्य कयि था, वह इतालवी मूल की उन्नत पनडुबबयिों के उत्पादन से भी जुड़ी थी, जो अपनी गुप्त युद्ध क्षमताओं के लयि भी जानी जाती हैं ।
- हालांकि कतरी अधिकारियों द्वारा आठ भारतीय अधिकारियों के खिलाफ लगे आरोपों को सार्वजनिक नहीं कयि गया है ।

Case History

In August 2022, eight Indian nationals – all retired Indian Navy personnel – were arrested by Qatari intelligence

Capt **Navtej Singh Gill**, Capt **Birendra Kumar Verma**, Capt **Saurabh Vasisht**, Cdr **Amit Nagpal**, Cdr **Purnendu Tiwari**, Cdr **Sugunakar Pakala**, Cdr **Sanjeev Gupta**, Sailor **Ragesh** were working for Al Dahra company

Before taking up jobs at Al Dahra, all had retired from Indian Navy several years ago

Initially, they were kept in solitary confinement without clear charges

They were charged with spying in Qatar on behalf of Israel

Al Dahra was shut down after the arrests

Reports said the personnel were working on a project to develop small, stealth submarines for the Qatar Navy

India had secured consular access to the accused and provided legal assistance

Trial started in March this year

Qatari court of first instance has pronounced them guilty and awarded death sentence

India is 'deeply shocked' at the verdict and 'exploring legal options'



■ पहिला परीक्षण:

- इस मामले में 2023 के मार्च और जून में दो परीक्षण हुए हैं। जबकि बंदियों को कई मौकों पर कांसुलर एक्सेस (Consular Access) प्रदान की गई थी, भारतीय और कतरी दोनों अधिकारियों ने मामले की संवेदनशीलता का हवाला देते हुए इस मामले में गोपनीयता को बनाए रखा है।

■ भारत की प्रतिक्रिया:

- भारत ने अपने नागरिकों को दी गई मौत की सजा पर चिंता व्यक्त की है और उनकी रहिई सुनिश्चित करने के लिये सभी संभावित कानूनी विकल्प तलाश रहा है।
- **वदिश मंत्रालय (MEA)** ने इस मामले से जुड़े बड़े महत्त्व से अवगत कराया है और हरिसत में लिये गए व्यक्तियों को कांसुलर तथकानूनी सहायता प्रदान करने की अपनी प्रतबिद्धता को दोहराया है।

इस मामले के कूटनीतिक नहितार्थ:

- यह नरिणय संभावति रूप से भारत और कतर के बीच संबंधों में तनाव उत्पन्न कर सकता है, जहाँ बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी आर्थिक एवं राजनयिक संबंधों को बढ़ावा देने में योगदान करते हैं।
- कतर में सात लाख से अधिक भारतीय आबादी नवास करती है जिससे भारत सरकार पर इस बात का दबाव बढ़ जाता है कहीं की जेलों में बंद कैदियों की जान बचाने हेतु उच्चतम स्तर की कार्रवाई की जाए।
 - वे अलग-अलग क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहे हैं। कतर में भारतीयों को उनकी ईमानदारी, कड़ी मेहनत, तकनीकी विशेषज्ञता और कानून का पालन करने वाले स्वभाव के लिये बहुत सम्मान दिया जाता है।
 - कतर में भारतीय प्रवासी समुदाय द्वारा भारत को भेजी जाने वाली धनराशि प्रतविरष लगभग 750 मिलियन डॉलर होने का अनुमान है।
- यह मामला भारत-कतर संबंधों में पहले बड़े संकट का प्रतनिधित्व करता है, जो आमतौर पर स्थिर रहे हैं।
 - दोनों देशों ने वर्ष 2016 में भारत के प्रधानमंत्री के दोहा दौरे के साथ उच्च स्तरीय बैठकें की, जिसके बाकतर के अमीर (Emir) के साथ भी बैठकें हुईं।
- कतर भारत को तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) का एक महत्त्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता है, जो भारत के LNG आयात का एक बड़ा भाग रखता है।

नौसेना कर्मियों की सजा को रोकने हेतु भारत के विकल्प:

■ राजनयिक विकल्प:

- भारत मामले का समाधान तलाशने के लिये कतर सरकार के साथ सीधी कूटनीतिक वार्त्ता कर सकता है। दोनों देशों के बीच संबंधों के रणनीतिक और आर्थिक महत्त्व को देखते हुए राजनयिक उत्तोलन महत्त्वपूर्ण भूमिका नभि सकता है।
- सरकार मृत्युदंड को रोकने के लिये राजनयिक दबाव का भी उपयोग कर सकती है।
- जनि संभावनाओं पर वचिार कथिा जा रहा है उनमें नरिणय के खलिाफ अपील दायर करना यादोषी कैदियों के स्थानांतरण के लिये वर्ष 2015 में भारत और कतर द्वारा हस्ताक्षरति समझौते का उपयोग करना है ताकि वे अपने गृह देश में अपनी सजा पूरी कर सकें।
- गैर सरकारी संगठन और नागरिक समाज इस मुद्दे को वैश्विक स्तर पर उठा सकते हैं तथा संयुक्त राष्ट्र का दबाव भी बनाया जा सकता है।

■ कानूनी विकल्प:

- पहला कदम कतर में न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत अपील करना है। मौत की सजा पाने वाले व्यक्तिकतर की कानूनी प्रणाली के तहत अपील दायर कर सकते हैं।
 - भारत बंदियों को कानूनी प्रतनिधित्व प्रदान करके यह सुनिश्चित कर सकता है कि अपील करने के उनके अधिकार का

- उचित रूप से पालन किया जाए।
- यदि उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जाता है या अपील प्रक्रिया अव्यवस्थित है, तो भारत **अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ)** क्षेत्राधिकार का उपयोग कर सकता है।
 - ICJ एक विश्व न्यायालय के रूप में कार्य करता है जिसके पास **दो प्रकार के क्षेत्राधिकार हैं** अर्थात् राज्यों के बीच उनके द्वारा प्रस्तुत किये गए कानूनी विवाद (विवादास्पद मामले) और संयुक्त राष्ट्र के अंगों तथा विशेष एजेंसियों (सलाहकार कार्यवाही) द्वारा इसे संदर्भित कानूनी प्रश्नों पर सलाहकारी राय के लिये अनुरोध।

भारत कनि मामलों में ICJ में शामिल था?

- कुलभूषण जाधव मामला (भारत बनाम पाकस्तान)
- भारतीय क्षेत्र पर मार्ग का अधिकार (पुरतगाल बनाम भारत, वर्ष 1960 में समाप्त)।
- ICAO परिषद् के क्षेत्राधिकार से संबंधित अपील (भारत बनाम पाकस्तान, वर्ष 1972 में समाप्त)।
- पाकस्तानी युद्धबंदियों का मुकदमा (पाकस्तान बनाम भारत, वर्ष 1973 में समाप्त)।
- 10 अगस्त, 1999 की हवाई घटना (पाकस्तान बनाम भारत, वर्ष 2000 में समाप्त)।
- परमाणु हथियारों की होड़ को रोकने और परमाणु नरिस्त्रीकरण की वार्ता से संबंधित दायित्व (मार्शल आइलैंड्स बनाम भारत, वर्ष 2016 में समाप्त)।

आगे की राह

- इस दशा में आगे का रास्ता चुनौतीपूर्ण होने की संभावना है और इसमें समय लगने एवं भारत को दृढ़ता दिखाने की आवश्यकता हो सकती है। **अंतरराष्ट्रीय कूटनीति** और कतर में **कानूनी प्रक्रिया की जटिलताओं से नपिटते हुए** भारत को **अपने नागरिकों के कल्याण एवं उनके कानूनी अधिकारों** के लिये प्रतबिद्ध रहना आवश्यक है।
- सफल और उचित समाधान के लिये **राजनयिक प्रयासों, कानूनी कार्रवाइयों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग** के संयोजन की आवश्यकता हो सकती है।

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/former-navy-personnel-sentenced-to-death-in-qatar>

